



To,

06/07/2021

BSE Ltd.  
Corporate Services Department,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai- 400001

**Sub: Submission of Newspaper advertisement of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2021 - Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and in continuation of our letter dated 29/06/2021, please find enclose herewith the copies of the following newspaper advertisements published in viz. Financial Express (English) and Naya India (Hindi) regarding publication of Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31 March, 2021. This intimation and Newspaper Copies will also be available on the website of the Company at [www.titanbiotechltd.com](http://www.titanbiotechltd.com).

This is for your kind information and record please.

S.N	Name of Newspaper	Publication Date	Language
1	Financial Express	01/07/2021	English
2	Naya India	01/07/2021	Hindi

Thanking you,  
Yours faithfully,  
For Titan Biotech Limited

  
Charanjit Singh  
Company Secretary  
Membership Number: A12726

Encl. As above







**INTEGRATED CAPITAL SERVICES LTD.**  
Registered Office: 606 New Delhi House,  
27 Barakhamba Road, New Delhi 110 001  
T/F + 91 11 4354 2784,  
Mobile No + 91 9811903459  
Corporate Identification Number  
L74899DL1993PLC051981  
Email: contact@raas.co.in  
Website: www.raas.co.in

**NOTICE**  
Notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company will be held at 4.00 pm (IST) on Friday, July 09, 2021 through video conferencing to consider and take on record the un-audited Standalone and Consolidated financial results of the Company for the quarter and three months ending June 30, 2021.  
In terms of Regulation 47(2) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, further details are available on the website of the company at www.raas.co.in.  
For Integrated Capital Services Ltd.  
Sd/-  
Date : 30.06.2021 Sajeev Dora  
Place: New Delhi (Director)

**Form No. INC-25A**  
Advertisement to be published in the newspaper for conversion of public company into a private company  
Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs Northern Region  
In the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of the Companies Act, 2015 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND  
In the Matter of M/s East Delhi Waste Processing Company Limited having its registered office at 217-A, Okhla Industrial Area, Phase-III, New Delhi-110020.....Applicant  
Notice is hereby given to the general public that the company is intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and its desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 31st Day of May, 2021 to enable the company to give effect for such conversion.  
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Parvathan Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below.  
For and on behalf of the Applicant  
EAST DELHI WASTE PROCESSING COMPANY LIMITED  
Sd/-  
Date: 01/07/2021 Bashir Ahmed Shirazi  
Place: Delhi (Director)  
DIN: 02821958  
R/o: H. No - 4-7-10/7p Raghavendra Nagar,  
Nacharam, Hyderabad - 500076  
Complete Address of Registered Office:  
217-A, Okhla Industrial Area, Phase-III,  
New Delhi-110020.

**apis**  
**APIS INDIA LIMITED**  
CIN: L51900DL1983PLC64048  
Regd. Office: 16/32, East Patel Nagar,  
New Delhi-110008  
Tel: 011-43206650 | Fax: 011-25713631  
E-mail: mail@apisindia.com  
Website: www.apisindia.com  
**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company which was originally scheduled to be held on Wednesday June 30, 2021 is postponed and rescheduled to be held on Saturday July 10, 2021, inter alia, to consider and approve the audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2021 ("audited financial results") and to consider and recommend dividend on preference share of the company for the financial year ended March 31, 2021, subject to the approval of shareholders of the company in the ensuing Annual General Meeting.  
The Trading Window shall continue to remain closed for dealing in securities of the Company for all Designated Persons till 48 hours from the declaration of financial results for first quarter ended June 30, 2021.  
The said Notice may be accessed on the Company's website at www.apisindia.com and may also be accessed on the Stock Exchange website at www.bseindia.com.  
For APIS India Limited  
Sd/-  
Amit Anand  
(Managing Director)  
DIN: 00951321  
Place: New Delhi  
Date: June 30, 2021

**FORM NO. INC-19**  
**NOTICE**  
[Pursuant to rule 22 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]  
1) Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (4)(ii) of section 8 of the Companies Act, 2013, an application has been made by M/s Suman Nirmal Minda Foundation to the Registrar of companies Delhi & Haryana at Delhi for revocation of the licence issued to it U/S 25 (1)(a) of the Companies Act, 1956 (Now section 8(5) of the Companies Act, 2013). After the cancellation of license the company will be required to add the word "Private Limited" to its name in place of Foundation.  
2) Principal objects of the company after the revocation of license as per the provisions u/s 8(4)(ii) of the Companies Act, 2013 shall be as follows:  
i. To promote, establish, subsidize, encourage, support, assist, aid and advance education and medical activities by promoting schools, colleges, university(s) for pre-primary, primary, secondary, undergraduate, post-graduate, doctoral, postdoctoral, vocational or otherwise in various branches or fields of education & to promote & establish Vocational training center(s), Life Skill training center(s), Soft Skills training center(s) & allied training centers, hospitals, dispensaries, nursing homes, healthcare services for treating any ailment, illness, disability, disorder or disease.  
ii. To undertake, carry out, promote and sponsor development of life in every aspect in rural and urban areas and to promote, encourage, support, assist and protect arts & culture & to promote & establish sports, research, social business project, social work, social welfare, religion, charity, protection of environment, children home, old age homes & relief of poverty.  
The objects of the company will be carried out on commercial basis.  
3) A copy of the draft memorandum and articles of the proposed company may be seen at B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052.  
4) Notice is hereby given that any person, firm, company, corporation or body corporate, objecting to this application may communicate such objection to the Registrar at Delhi within thirty days from the date of publication of this notice, by a letter addressed to The Registrar of Companies Delhi & Haryana, 4th Floor, IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi- 110019, a copy of which shall be forwarded to the Applicant at B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052.  
Name(s) of Applicant  
For Suman Nirmal Minda Foundation  
Sudhir Jain  
Date: 01/07/2021  
Place: New Delhi (Director)

TRC FINANCIAL SERVICES LIMITED				
Regd. Office : Bandra Hill View CHS, 3rd Floor, 85, Hill Road, Opp. Yoko Sizzler, Bandra (West), Mumbai - 400050. (CIN - L74899MH1994PLC216417)				
EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021				
(Rs. In Lacs except earning per share)				
Particulars	Current Quarter Ended 31st March, 2021	Year to date figures 31st March, 2021	Corresponding 3 months ended in the previous year 31st March, 2020	
	Audited	Audited	Audited	
Total income from operations (net)	2.14	62.65	27.45	
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	-9.04	27.22	9.12	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (After exceptional and/or extraordinary items)	-9.04	27.22	9.12	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	-5.40	26.62	9.04	
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	-	-	-	
Equity Share Capital	500.09	500.09	500.09	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-242.69	-242.69	-269.31	
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	-0.11	0.53	0.18	
Basic	-0.11	0.53	0.18	
Diluted	-0.11	0.53	0.18	

**NOTE :-**  
1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange websites - www.bseindia.com and Website of the Company- www.trcfins.in  
For and on behalf of Board of Directors  
TRC Financial Services Limited  
Sd/-  
Sabarinath Sd/-  
Whole time Director  
DIN: 08479403  
Place: Bangalore  
Date: 29-06-2021

VAMSHI RUBBER LIMITED				
CIN: L25100TG1993PLC016634 Regd. Office: VAMSHI HOUSE, Plot No. 41, Jayabheri Enclave, Gachibowli, Hyderabad-500032, Telangana E-Mail: info@vamshirubber.org, Website: www.vamshirubber.org				
EXTRACT FROM THE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021				
(RS. IN LAKHS)				
Sr. No.	PARTICULARS	QUARTER ENDED 31-03-2021 Audited (Ind AS)	QUARTER ENDED 31-03-2020 Audited (Ind AS)	Year Ended 31-03-2021 Audited (Ind AS)
1.	Total Income from operations	1,773.74	1,450.92	5,835.68
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(102.34)	9.42	(400.94)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(102.34)	17.05	(399.90)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	26.55	34.29	(282.15)
5.	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (After tax)	16.06	27.97	(292.64)
6.	Equity Share Capital	420.68	420.68	420.68
7.	Reserves excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	1,114.45	1,102.74	1,114.45
8.	Earning Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10/- each)	0.38	0.66	(6.96)
	(a) Basic (in Rs.)	0.38	0.66	(6.96)
	(b) Diluted (in Rs.)	0.38	0.66	(6.96)

**NOTE:-**  
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites, www.bseindia.com and website of the Company www.vamshirubber.org  
2. The Company has adopted Indian Accounting Standards under Section 133 of the Companies Act, 2013 (Ind AS) from 1st April, 2017  
By the Order of the Board for Vamshi Rubber Limited  
Sd/-  
(R.SURENDRA REDDY)  
Managing Director & CEO  
DIN : 00240240  
Place: Hyderabad  
Date: 30-06-2021

**COVENTRY COIL-O-MATIC (HARYANA) LIMITED**  
Regd. Off. : 87th Km Stone, NH 8, Delhi Jaipur Road, Village Salawas, Sangwari, Dist. Rewari 123401 (Haryana).  
CIN : L74999HR1988PLC030370, Website : (www.coilmomatic.com); email: info@coilmomatic.com; Phone No. : 9896033299  
Extract of standalone Audited Financial Results for the year / quarter ended 31st March, 2021  
(Rupees in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Current Quarter	Corresponding Quarter	Year Ended	
		31st March, 2021 Audited	31st March, 2020 Audited	31st March, 2021 Audited	31st March, 2020 Audited
1.	Other Income/Income from operation	1,455.77	1,094.73	3,927.22	4,568.78
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(98.72)	(36.15)	(48.45)	(211.89)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(98.72)	(36.15)	(48.45)	(211.89)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(98.72)	(36.15)	(48.45)	(211.89)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	9.93	(13.05)	7.93	(7.86)
6.	Equity Share Capital	450.80	450.80	450.80	450.80
7.	Reserves (Excluding Revaluation reserves as shown in Balance Sheet of previous year)	-	-	-	-
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic:	(2.19)	(0.80)	(1.07)	(4.70)
	2. Diluted	(2.19)	(0.80)	(1.07)	(4.70)

**Notes:**  
1. The above standalone results for the quarter and year ended 31st March, 2021 have been reviewed by Audit Committee and approved by Board of Directors of the Company at its meeting held on 30th June, 2021.  
2. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the stock exchanges website at a link (bseindia.com#corporates) and on the Company's website at www.coilmomatic.com.  
for and on behalf of the Board of Directors  
R M Bafna  
Managing Director  
DIN No. 00159855  
Place: Rewari (Haryana)  
Date: 30-June-2021

## Shakumbhri Pulp & Paper Mills Limited

CIN: L2102UP1986PLC007671  
 Regd. Office: 4.5 KM., BHOPA ROAD, MUZAFFARNAGAR-251001, UTTAR PRADESH  
 Email: shakumbhripaper@gmail.com | Website: www.shakumbhripulp.com | Contact No: 9548493030

**AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED AS ON 31ST MARCH 2021**

		(STANDALONE)			(Rs. In Lakhs)	
Sl. No.	Particulars	31-Mar-21 3 months Audited	31-Dec-20 3 months Unaudited	31-Mar-20 3 months Audited	31-Mar-21 12 month Audited	31-Mar-20 12 month Audited
1	Total Income from Operations	2,519.23	2,025.19	1,428.09	7,414.40	5,766.48
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax & Exceptional)	171.23	29.47	33.93	228.33	80.24
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	171.23	29.47	33.93	228.33	80.24
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	104.73	44.86	12.54	170.59	32.25
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	107.37	45.26	7.94	173.36	27.89
6	Equity Share Capital	385.50	385.50	385.50	385.50	385.50
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)					
	1. Basic:	2.72	1.16	0.33	4.43	0.84
	2. Diluted:	2.72	1.16	0.33	4.43	0.84

**Notes:**  
 1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly and yearly Audited Financial Result filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on website of the company [www.shakumbhripulp.com](http://www.shakumbhripulp.com).  
 2) The above results were reviewed and recommended by the audit committee and taken on record by the Board of Director at its meeting held on 30.06.2021 and same has been audited by the Company's Statutory Auditors.

**Shakumbhri Pulp & Paper Mills Limited**  
 Sd/-  
**Garish Kumar Agarwal**  
 Director  
 DIN:06457195

**Place : Muzaffarnagar**  
**Date : 30-06-2021**

**Notes:**  
1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly and yearly Audited Financial Result filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on website of the company 'www.shakumbhripulp.com'.  
2) The above results were reviewed and recommended by the audit committee and taken on record by the Board of Director at its meeting held on 30.06.2021 and same has been audited by the Company's Statutory Auditors.  
Shakumbhri Pulp & Paper Mills Limited  
Sd/-  
Girish Kumar Agarwal  
Director  
DIN:06457199  
Place : Muzaffarnagar  
Date : 30-06-2021

**PUBLIC NOTICE**  
My Client Pradeep Nath Khanna and my wife Smt. Manju Khanna R/o 383-384, Double Story, New Rajinder Nagar, 1<sup>st</sup> Floor, New Delhi-110060, Hereby Disowned my Daughter Pooja Nanda her husband Anurag Nanda and their children for their Misconduct and Alleged Threat to our Life. That she shall not inherit any of my properties moveable and immovable and elsewhere and shall not be entitled to the grant of probate to my will.  
Anybody transacting any business with Pooja Nanda and Anurag Nanda in respect to me is doing that in his/her own risk, general public take note.  
Madan Gopal Vacher (Advocate)  
Ch.No. 234, Civil Wing, Tis Hazari, Delhi-110054

**IMPORTANT**  
Whilst care is taken prior to acceptance of an advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**NOVARTIS INDIA LIMITED**  
Registered Office: Inspire BKC, Part of 601 & 701, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai - 400 051  
Tel: +91 22 50243000; Fax: +91 22 50243010  
Email: india.investors@novartis.com  
Website: www.novartis.in  
CIN: L24200MH1947PLC006104  
**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Novartis India Limited is scheduled to be held on Wednesday, August 11, 2021 to inter alia consider and approve the Unaudited Financial Results for the first quarter ended June 30, 2021.  
The said Notice is also available on the website of the Company www.novartis.in and website of the BSE Limited www.bseindia.com.  
By order of the Board of Directors  
Trivikram Guda  
Mumbai Company Secretary & June 30, 2021 Compliance Officer

**ROLLATINERS LIMITED**  
(CIN: L21014HR1968PLC004844)  
Regd. Office: Plot No. 73-74, Phase- III, Industrial Area, Dharuhera, District-Rewari  
Rewari-123106  
Phone: 01274-243326, 242220  
E-mail: cs.rollatiners@gmail.com  
Website: www.rollatiners.in  
**POSTPONEMENT OF BOARD MEETING**  
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that due to some unavoidable circumstances the meeting of Board of Directors of the Company which was scheduled to be held on Wednesday, 30th June 2021, is now postponed and re-scheduled to be held on Thursday, 15th July 2021 inter alia, to consider, approve and take on record the Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the quarter & year ended March 31st, 2021.  
The said Notice may be accessed on the Company's website and the website of BSE www.bseindia.com and NSE i.e. www.nseindia.com.  
For Rollatiners Limited  
Sd/-  
Pyush Gupta  
Whole Time Director  
Date: 30.06.2021  
Place: New Delhi DIN: 03392865

# NEERAJ PAPER MARKETING LIMITED

CIN: L74899DL1995PLC066194

Regd. Office: 218-222, Agarwal Prestige Mall, PLOT NO. 2, Community Center,  
Along Road No. 44, Pitampura, Delhi - 110034

Board: +91 11 47527700 | Fax: +91 11 47527777 | E-mail: mansi@neerajpaper.com | Website: www.neerajpaper.com

**AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31/03/2021**

**(STANDALONE)**
(₹ In Lakhs)

Sl. No.	Particulars	31-Mar-21	31-Dec-20	31-Mar-20	31-Mar-21	31-Mar-20
		3 months	3 months	3 months	12 months	12 months
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	3571.34	3212.32	3212.26	10909.36	14428.20
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax & Exceptional)	12.45	28.20	6.71	55.19	63.50
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	12.45	28.20	6.71	55.19	63.50
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	9.06	21.75	35.09	35.09	76.39
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	6.14	21.75	43.59	38.04	84.89
6	Equity Share Capital	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	1465.62	1427.59	1427.59	1465.62	1427.59
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)					
	1. Basic:	0.08	0.20	0.32	0.37	0.69
	2. Diluted:	0.08	0.20	0.32	0.37	0.69

**Notes:**

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Yearly Audited Financial Result filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & yearly Audited Financial Results are available on Stock Exchange website ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)).
- The above results were reviewed and recommended by the audit committee and taken on record by the Board of Director at its meeting held on 30/06/2021 and the Statutory Auditor have conducted the audit of the financial statements and have expressed an unmodified report on these financial results.

**Neeraj Paper Marketing Limited**  
**Sd/-**  
**DEEPAK GOEL**  
**WHOLE TIME DIRECTOR**  
**DIN: 00200527**

**Place : Delhi**  
**Date : 30/06/2021**

**Notes:**  
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Yearly Audited Financial Result filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & yearly Audited Financial Results are available on Stock Exchange website (www.bseindia.com).  
2. The above results were reviewed and recommended by the audit committee and taken on record by the Board of Director at its meeting held on 30/06/2021 and the Statutory Auditor have conducted the audit of the financial statements and have expressed an unmodified report on these financial results.  
Neeraj Paper Marketing Limited  
Sd/-  
DEEPAK GOEL  
WHOLE TIME DIRECTOR  
DIN: 00200527  
Place : Delhi  
Date : 30/06/2021

AGARWAL DUPLEX BOARD MILLS LIMITED						
CIN: L99999DL1984PLC019052						
Regd. Office: 217, Agarwal Prestige Mall, Plot No. 2 Community Center, Alogn Road No. 44, Pitampura, Delhi - 110034						
Board: +91 11 47527700   Fax: +91 11 47527777   E-mail: agarwalduplex1984@gmail.com   Website: www.agarwalduplex.net						
AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021						
(STANDALONE)					(₹ In Lakhs)	
Sl. No.	Particulars	31-Mar-21 3 months (Audited)	31-Dec-20 3 months (Unaudited)	31-Mar-20 3 months (Audited)	31-Mar-21 12 months (Audited)	31-Mar-20 12 months (Audited)
1	Total Income from Operations	4062.13	3774.64	3172.28	12731.74	15351.85
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax & Exceptional)	-12.97	46.65	44.11	85.31	160.89
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	-12.97	46.65	44.11	85.31	160.89
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	10.92	38.84	14.88	37.20	114.16
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-27.05	38.84	11.72	70.62	111.00
6	Equity Share Capital	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	1417.20	1346.58	1346.58	1417.20	1346.58
8	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each)					
	1. Basic:	-0.02	0.03	0.11	0.36	0.85
	2. Diluted:	-0.02	0.03	0.11	0.36	0.85

**Notice**

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly & yearly Audited Financial Result filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & yearly Audited Financial Results are available on Stock Exchange websites ([www.mseil.in](http://www.mseil.in)).

2 The above results were reviewed and recommended by the audit committee and taken on record by the Board of Director at its meeting held on 30/06/2021 and the Statutory Auditor have conducted the audit of the financial statements and have expressed an unmodified report on these financial results.

**Agarwal Duplex Board Mills Limited**

Sd/-  
Neeraj Goel  
Managing Director  
DIN: 00017498

Place : Delhi  
Date : 30/06/2021

**Notice**  
1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly & yearly Audited Financial Result filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & yearly Audited Financial Results are available on Stock Exchange websites (www.mseil.in).  
2 The above results were reviewed and recommended by the audit committee and taken on record by the Board of Director at its meeting held on 30/06/2021 and the Statutory Auditor have conducted the audit of the financial statements and have expressed an unmodified report on these financial results.  
Agarwal Duplex Board Mills Limited  
Sd/-  
Neeraj Goel  
Managing Director  
DIN: 00017498  
Place : Delhi  
Date : 30/06/2021

# TITAN BIOTECH LIMITED

CIN : L74999RJ1992PLC013387

Regd. Office :- A-902 A RIICO Industrial Area, Phase III, Bhiwadi, Rajasthan-301019  
Phone No. 011- 27674615 | Email : hr@titanbiotechltd.com | www.titanbiotechltd.com

## STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

(Rs. IN LAKHS) except for EPS

Sr. No.	PARTICULARS	STANDALONE					
		QUARTER ENDED			YEAR ENDED		
		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	
		AUDITED	UNAUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED	
1	Total Income from Operations (Net)	2,961.36	3,110.63	1,821.55	12,311.93	6,988.58	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	523.52	855.69	232.83	3,908.59	762.84	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	482.07	855.69	232.83	3,876.15	824.25	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	338.12	640.88	193.25	2,877.27	620.14	
5	Total comprehensive income for the period (comprising Profit/(Loss) for the period(after tax) and Other Comprehensive income(after tax)(refer note 3)	344.16	640.88	188.54	2,883.31	615.43	
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- per share)	826.37	826.37	826.37	826.37	826.37	
7	Other Equity excluding Revaluation Reserves as per the balance sheet	-	-	-	5,755.64	2,954.96	
8	Earning Per Share (of INR 10/- each)						
(a)	Basic	4.09	7.76	2.34	34.82	7.50	
(b)	Diluted	4.09	7.76	2.34	34.82	7.50	

## STATEMENT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

(Rs. IN LAKHS) except for EPS

S. NO.	PARTICULARS	CONSOLIDATED					
		QUARTER ENDED			YEAR ENDED		
		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	
		AUDITED	UNAUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED	
1	Total Income from Operations (Net)	3,581.82	3,473.34	2,026.02	14,302.56	7,988.75	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	619.70	910.74	228.50	4,303.00	979.01	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	578.26	910.74	228.50	4,270.56	1,040.42	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	408.75	681.54	194.95	3,170.53	783.74	
5	Total comprehensive income for the period (comprising Profit/(Loss) for the period(after tax) and Other Comprehensive income(after tax)(refer note 3)	413.96	681.54	189.93	3,175.74	778.72	
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- per share)	826.37	826.37	826.37	826.37	826.37	
7	Other Equity excluding Revaluation Reserves as per the balance sheet	-	-	-	6,049.45	3,092.96	
8	Earning Per Share (of INR 10/- each)						
(a)	Basic	4.55	8.02	2.33	36.71	8.55	
(b)	Diluted	4.55	8.02	2.33	36.71	8.55	

### NOTES:

- The above is an extract of the detailed format of Standalone & Consolidated audited Financial Results for the quarter and year ended on 31.03.2021 filed with the BSE Limited Under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone & Consolidated audited Financial Results for the said quarter and year ended on 31.03.2021 are available on the website of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on company website at [www.titanbiotechltd.com](http://www.titanbiotechltd.com).
- The above audited Standalone & Consolidated financial results for the quarter and year ended on 31.03.2021 have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at its meeting held on June 29, 2021. The Statutory Auditors of the Company have carried out a limited review in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015.
- The Company has elected to exercise the option permitted under section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 as introduced by Taxation Law (Amendment) Ordinance 2019. Accordingly, the Company has recognized provision for income tax for the quarter and year ended on 31st March 2021 and remeasured its deferred tax balance on the basis of the rate prescribed in the said section.
- The COVID-19 outbreak and resulted national lockdown imposed by the Government of India has caused Pan-India disruption of business. The Company has considered the possible risk that may result from the pandemic on the carrying amount of its financial and non-financial assets, for which the Company has used the principles of prudence in applying judgments and assumptions as well as the internal / external information available up to the date of approval of these results and the same does not have material impact on these financial results. The Company will continue to closely monitor any material impact of future economic conditions.
- The total sale for the quarter ended 31.03.2021 includes sale of Products of Rs. 548.34 Lakhs the demand for which arose due to Covid19 Pandemic.
- The Standalone & Consolidated audited financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") specified in the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (as amended) under section 133 of the Companies Act 2013 (the "accounting principles generally accepted in India").
- During the year, the company paid Rs. 10.92 Lakhs towards corporate social responsibility (CSR) expenditure.
- The Board of Directors of the company has recommended a dividend of Rs. 1.50 per equity share for the financial year ended on 31st March, 2021. The Dividend will be paid after approval of the same by shareholders in the Annual General meeting.

For and on behalf of Board of Directors  
for TITAN BIOTECH LTD.

Sd/-  
NARESH KUMAR SINGLA  
Managing Director  
DIN-00027448

Place : Delhi

Dated : 29/06/2021